

6970

8

6. कीन्स के अनुसार मजदूरी कठोरता के मुख्य स्रोतों की रूपरेखा तैयार कीजिए। मजदूरी कठोरता को देखते हुए, क्या अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार प्राप्त कर सकती है? समझाइये।

7. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(क) तरलता बाधा और अदूरदर्शिता

(ख) हिस्टैरिसिस प्रभाव

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 6970

J

Unique Paper Code : 2272202401

Name of the Paper : Intermediate Macroeconomics-I
Foundation of Aggregate Income Determination

Name of the Course : B.A. (Prog.)

Semester : IV

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt any 5 Questions from Section A and any 5 Questions from Section B. Clearly indicate the section when answering any Question.
3. All Questions in Section A carry 6 marks each, and All Questions in Section B carry 12 marks each.

4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. खंड अ से कोई 5 प्रश्न तथा खंड ब से कोई 5 प्रश्न हल करें। किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय खंड का स्पष्ट उल्लेख करें।
3. खंड अ के प्रत्येक प्रश्न 6 अंक के हैं तथा खंड ब के प्रत्येक प्रश्न 12 अंक के हैं।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

SECTION A

1. What do you understand by the Barro-Ricardo equivalence proposition? Discuss.

खंड ब

1. कीनेसियन मॉडल के भीतर सरकारी खर्च (जी) में वृद्धि के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए जहां मूल्य स्तर लचीला है लेकिन मौद्रिक मजदूरी को स्थिर माना जाता है। उपयुक्त आरेखों का उपयोग करके चर्चा कीजिए।
2. उपभोग के स्थायी आय सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए।
3. मौद्रिकवादी मॉडल में मौद्रिक नीति के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव की तुलना कीजिए। उपयुक्त आरेखों का उपयोग कीजिए।
4. अनुकूली अपेक्षाओं की परिकल्पना बताइये। यह हमें अपेक्षित, अप्राप्य चर को वास्तविक, प्रेक्षणीय चर से कैसे जोड़ने की अनुमति देता है? बीजगणितीय रूप से चित्रित कीजिए।
5. इन्वेंट्री निवेश का त्वरक मॉडल क्या है? व्यापार चक्रों में प्रत्याशित और अप्रत्याशित इन्वेंट्री निवेश की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

6970

6

खंड अ

1. बैरो-रिकार्डो तुल्यता प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए।
2. सरकारी खर्च में वृद्धि के लिए आउटपुट प्रतिक्रिया निर्धारित करने में कुल आपूर्ति की भूमिका दर्शाइये।
3. समग्र आपूर्ति के कीनेसियन बनाम शास्त्रीय सिद्धांतों की तुलना कीजिए।
4. समग्र आपूर्ति अनुसूची को बदलने वाले कारक क्या हैं?
5. पूंजी के वांछित स्टॉक के प्रमुख निर्धारकों की व्याख्या कीजिए।
6. तर्कसंगत अपेक्षा सिद्धांत पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।
7. दीर्घावधि के फिलिप्स वक्र की व्याख्या कीजिए। यह अल्पावधि से कैसे भिन्न है।

6970

3

2. Demonstrate the role of aggregate supply in determining the output response to an increase in government spending.
3. Compare the Keynesian versus Classical theories of Aggregate supply.
4. What are the factors that shifts the aggregate supply schedule?
5. Explain the key determinants of the desired stock of capital.
6. Write a short note on the theory Rational Expectation.

6970

4

7. Explain long run Phillips curve. How it is differ to short run.

SECTION B

1. Analyse the impact of an increase in government spending (G) within the Keynesian model where the price level is flexible but money wages are assumed to be fixed. Discuss using suitable diagrams.
2. Explain the permanent income theory of consumption in detail.
3. Compare the short-run and long-run impact of monetary policy in the Monetarist model. Use suitable diagrams.

6970

5

4. State the Adaptive expectations hypothesis. How does it allow us to relate expected, unobservable variables to actual, observable variables? Illustrate algebraically.
5. What is the accelerator model of inventory investment? Discuss the role of anticipated and unanticipated inventory investment in business cycles.
6. Outline the main sources of wage rigidity as per Keynes. Given wage rigidity, can the economy always achieve full employment? Explain.
7. Write short notes on :
 - (a) Liquidity constraint and myopia
 - (b) Hysteresis effect